



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 697)

पटना, वृहस्पतिवार, 25 जुलाई 2024

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

19 जुलाई 2024

सं० भू0नि0-01/2017(खण्ड-II)-2896/एम0—राज्यान्तर्गत जमुई जिला में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) का एक ब्लॉक, रोहतास/कैमूर जिले में ग्लूकोनाइट (पोटाश) के चार ब्लॉक, रोहतास जिला में चूना-पत्थर का एक ब्लॉक, गया/ औरंगाबाद जिले में क्रोमियम, निकेल तथा प्लैटिनम (तत्व समूह) का एक ब्लॉक, मुंगेर जिला में बॉक्साइट एवं विरल मृदा धातु का एक ब्लॉक तथा गया/जहानाबाद जिले में वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट— इलमेनाइट का एक ब्लॉक अर्थात् वृहद् खनिज के कुल 09 (नौ) खनिज ब्लॉक भारत सरकार द्वारा नीलामी के लिए राज्य सरकार को आवंटित किये गये हैं। उक्त ब्लॉकों के नीलामी हेतु ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में “SBI कैपिटल मार्केट्स लि0” से एवं ‘ऑक्शन प्लेटफॉर्म’ के रूप में मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन लि0 की सेवा लिए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27.06.2023 को दिया जा चुका है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के आलोक में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से 06 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।

2. राज्य सरकार को आवंटित 03 ब्लॉकों यथा—02 वृहद् खनिज ब्लॉक जमुई जिला में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) का एवं रोहतास जिला में चूना-पत्थर का एक ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार द्वारा करायी जानी है।

3. वृहद् खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति उपरांत टेण्डर अप्रूवल कमिटी (TAC) गठित है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी, प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी, निदेशक, खान एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार शामिल हैं। साथ ही कमिटी में उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बिहार इकाई भी शामिल है।

4. दिनांक 01.07.2024 को टेण्डर अप्रूवल कमिटी (TAC) द्वारा जमुई जिला के मजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं रोहतास जिले के भोरा-कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक के ई-नीलामी के संबंध में बैठक की गयी। बैठक में तीनों ब्लॉक का अनुमानित आरक्षित मूल्य (VER), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंकलित

खनिज उपलब्धता एवं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज के लिए जारी किये गये मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित करने की अनुशंसा की गई :-

ब्लॉक/खनिज/जिला का नाम	रिसोर्स (मेट्रिक टन में)	एक्सप्लोरेशन स्टेटस	अनुमानित आरक्षित मूल्य (VER) (करोड़ ₹ में)
मजोस/मैग्नेटाईट (आयरन ओर)/जमुई	48.40	G2 (0.812 वर्ग कि०मी०)	3,817.60
भंटा/मैग्नेटाईट (आयरन ओर)/जमुई	6.49	G3 (0.169 वर्ग कि०मी०)	511.91
भोरा कटरा/लाईम स्टोन /रोहतास	33.25	G2 (1.359 वर्ग कि०मी०)	1,761.42

5. अतएव बिहार राज्यान्तर्गत वृहद् खनिज के 03 खनिज ब्लॉकों यथा—जमुई जिलान्तर्गत मौजा—मजोस एवं भंटा स्थित मैग्नेटाईट (लौह अयस्क) के 02 ब्लॉक एवं रोहतास जिलान्तर्गत मौजा—भोरा—कटरा में 01 लाईमस्टोन ब्लॉक की ई—नीलामी के लिए कंडिका—4 में टेण्डर अप्रूवल कमिटी द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value Estimated Resource) की स्वीकृति दी जाती है।

6. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
धर्मेन्द्र सिंह,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 697-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>